



एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) and न्यूनतम लेंडिंग रेट (MLR)

एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) (प्रभावी तिथि: ०१ मार्च, २०२५)

६.२५.% + स्प्रेड

नोट:

- EBLR में उपयोग किया गया बाहरी बेंचमार्क RBI रेपो रेट है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बदला जा सकता है।
- २६ अप्रैल २०२१ के बाद वितरित सभी लागू ऋण EBLR ढांचे के अंतर्गत आते हैं।
- बाहरी बेंचमार्क और स्प्रेड में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर बैंक द्वारा EBLR में बदलाव किया जा सकता है।

(प्रभावी तिथि: ०२ मार्च, २०२३)

१०.४५%